



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 514 राँची, सोमवार,

01 जुलाई, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

21 जून, 2019

**संख्या:-8/गठन/109/2017/ न0वि0आ०-2535--** झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) की धारा 3 की उपधारा (2)(स), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) में किये गये प्रावधान के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत सरैया अंचल क्षेत्र को विभागीय अधिसूचना संख्या-2314, दिनांक-02.05.2018 (गजट अधिसूचना संख्या-471, दिनांक-04.05.2018) के द्वारा बड़की सरैया नगर पंचायत का गठन किया गया है।

कालांतर में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-325, दिनांक-31.05.2019 द्वारा बड़की सरैया नगर पंचायत के पंचायत क्षेत्र, राजस्व ग्राम, जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व संबंधी संशोधित अनुशंसा के आधार पर अधिसूचना (शुद्धि-पत्र) संख्या-2521, दिनांक-21.06.2019 निर्गत किया गया है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा 15 की उपधारा (2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

3. 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के नियम 3 का उपनियम (1)(ग)(i) क्रमांक 1 में नगर पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के गठन का

प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 12,000 की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या 10(दस) होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 2,800 की जनसंख्या पर 1(एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में बड़की सरैया नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है :-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
गिरिडीह	बड़की सरैया नगर पंचायत	18933	12,000	10	6933	2,800	2.47	02	12

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के अध्याय 2, नियम 3 के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर बड़की सरैया नगर पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 12 एवं पार्षदों की संख्या भी 12 निर्धारित की जाती है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव ।

-----